

## वस्त्र मंत्रालय

### अगस्त, 2019 हेतु कैबिनेट के लिए मासिक सार

#### 1. नीतिगत निर्णय:

##### पटसन

सचिव(वस्त्र) की अध्यक्षता में दिनांक 6 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक आयोजित की गई जिसमें पटसन वर्ष 2019-20 हेतु खाद्यान्न व चीनी की पैकेजिंग के मानकों की अनुशंसा करने के लिए एसएसी के सदस्यों के विचार मांगे गए थे।

##### समर्थ

- सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में 09.08.2019 को स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना के अधीन अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की एक बैठक आयोजित की गई। 2,89,250 लोगों के कुल प्रशिक्षण लक्ष्य के सहित 11 राज्य सरकार एजेंसियों को पैनालबद्ध करने के लिए प्रस्ताव मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है।
- वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र में कौशल के अंतर को पूरा करने तथा महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने की दृष्टि से हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन, रेशम जैसे पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों के साथ-साथ अपैरल व परिधान, मेड-अप्स, वस्त्र प्रसंस्करण तथा तकनीकी वस्त्रों के संगठित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम- समर्थ के कार्यान्वयन हेतु 18 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की है। इससे देश के लगभग 4 लाख युवाओं को कौशल विकास तथा जीविकोपार्जन हेतु लाभ मिलेगा। साझेदार राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल तथा कर्नाटक।

##### कपास

आगामी कपास मौसम में एमएसपी कार्यक्रमों को पारदर्शी व प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार ने कपास उत्पादक राज्यों के अधिकारियों के साथ 19.08.2019 को बैठक

की। तदोपरांत यह निर्णय लिया गया कि सभी कपास उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेश दिए जाएं:

- कपास किसानों को कमीशन एजेंट, बिचौलियों या व्यापारियों के दखल के बिना वास्तविक एमएसपी उपलब्ध कराना;
- जमीन तथा भूमि रिकार्ड के अनुसार कपास किसानों की पहचान, वार्षिक फसल आंकड़ों के साथ जमीन के रिकार्ड का समेकन;
- कपास किसानों के खातों में सीधा त्वरित भुगतान केंद्र की सुविधा के लिए बाजार यार्ड में सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैनेरेट करना तथा बिना मानव हस्तक्षेप के सीसीआई सर्वर को भेजा जाना;
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के यार्डों अथवा वैकल्पिक रूप में कपास की आगत को नियंत्रित करने के लिए सीसीआई द्वारा नियुक्त गिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों को एपीएमसी के अधिसूचित उप बाजार यार्डों के रूप में घोषित किया जाए।
- सीसीआई द्वारा खरीदी गई कपास के भंडारण हेतु उनके द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन गोदामों तथा एपीएमसी सीसीटीवी की व्यवस्था; तथा
- सीसीआई की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में गिनर्स द्वारा गुटबाजी को रोकने के लिए उचित हस्तक्षेप किए जाएं।

## **2. मुख्य उपलब्धिया:**

### **i. हथकरघा क्षेत्र**

- 7 अगस्त, 2019 को सारे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित किया गया था जिसमें पूरे राज्य के 1200 बुनकरों/विद्यार्थियों (निफ्ट/सीईटी/आईआईएचटी) सहित लगभग 1500 व्यक्ति शामिल हुए थे।
- घरेलु ग्राहकों में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने तथा हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए सहायता प्रदान करने अगस्त, 2019 माह में 7 राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी जिसमें नई दिल्ली में 2; वाराणसी, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद तथा जबलपुर में एक-एक प्रदर्शनी शामिल हैं।
- विदेशी बाजारों में हथकरघा को प्रोत्साहन देने के लिए 11-14 अगस्त, 2019 में लॉस बेगास, यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय मेले में सहभागिता की गई।

- 1.78 करोड़ रुपए की ऋण राशि के 295 मुद्रा ऋणों को मंजूरी दी गई जिसमें से 1.21 करोड़ रुपए की राशि अगस्त, 2019 में वितरित की गई।

**ii. हस्तशिल्प क्षेत्र:**

- 100 दिवसीय कार्यक्रम से संबंधित निर्णय के अनुसार इस माह ज्योग्रॉफिकल इंडिकेशन (जीआई) अवेयरनेस कैंपेन के लिए 3 क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- 1.8.2019 से 15.08.2019 के दौरान दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में देश भर से 236 कारीगरों ने भाग लिया तथा 16.08.2019 से 31.08.2019 के दौरान 118 कारीगरों ने भाग लिया।
- श्री कोनराड संगमा, माननीय मुख्य मंत्री मेघालय तथा श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, वस्त्र मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.08.2019 को (नोंगपोह (रि-बोर्ड जिला) में एकीकृत वस्त्र पर्यटन परिसर की आधारशिला रखी गई थी जिसमें श्री बी.लिंगदोह, वस्त्र मंत्री, मेघालय सरकार भी उपस्थित थे।
- श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री ने 13 अगस्त, 2019 को प्रगति मैदान में टेक्सटाइल गैलरी का शुभारंभ किया।

**iii. टीयूएफएस:** अगस्त, 2019 में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत 3,075.50 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा 195.79 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकताओं सहित 531 यूआईडी जारी किए गए हैं।

**iv. विद्युतकरघा क्षेत्र:**

विद्युतकरघा कार्मिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना, जिमसें भारत सरकार का प्रीमियम का कुल हिस्सा 4,13,748 रुपए है, के तहत अगस्त, 2019 में विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 2554 विद्युतकरघा कार्मिकों का पंजीकरण किया गया था।

\*\*\*\*\*